



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

फरवरी 24, 2012



खंड 27

संख्या 8

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

मद	2011	2012		घट – बढ़	
	18 फरवरी	10 फरवरी	17 फरवरी #	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
जारी नोट	9,333.38	10,415.73	10,464.07	48.34	1,130.69
संचलन में नोट	9,333.24	10,415.59	10,463.95	48.36	1,130.71
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	0.13	0.14	0.12	-0.02	-0.01
जमा राशियां					
केंद्र सरकार	472.02	1.01	1.01	—	-471.02
बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—
राज्य सरकार	8.46	0.42	0.42	—	-8.04
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,258.66	3,258.02	3,554.82	296.79	296.16
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	37.53	35.55	36.10	0.55	-1.42
अन्य बैंक	153.17	159.55	163.37	3.82	10.21
अन्य	119.12	115.75	115.62	-0.13	-3.50
अन्य देयताएं	3,647.43	5,371.74	5,309.42	-62.32	1,661.99
कुल देयताएं / आस्तियां	17,029.76	19,357.78	19,644.83	287.05	2,615.07
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	12,269.25	12,897.80	12,790.38	-107.42	521.13
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	1,007.39	1,327.83	1,327.83	—	320.44
रूपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	3,621.50	4,992.95	5,343.10	350.15	1,721.59
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	—	—	—	—
राज्य सरकारें	21.21	—	2.98	2.98	-18.22
नाबार्ड	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	33.14	41.86	81.45	39.59	48.31
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.69	—	—	—	-0.69
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	3.19	21.11	21.36	0.24	18.16
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	13.20	13.20	13.20	—	—
अन्य आस्तियां	60.19	63.03	64.54	1.51	4.34

- (1) विदेशी प्रतिभूतियाँ, विदेशों में रखी गई राशियाँ और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।
 (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।
 (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रूपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	17 फरवरी 2012		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2011 की समाप्ति पर		दिसम्बर 2011 की समाप्ति पर		वर्ष	
	बिलियन ₹	मिलि.अम. डॉलर	बिलियन ₹	मिलि.अम. डॉलर	बिलियन ₹	मिलि.अम. डॉलर	बिलियन ₹	मिलि.अम. डॉलर	बिलियन ₹	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल भंडार	14,452.8	293,439.7	-111.7	55.8	842.7	-11,378.4	-1,351.9	-3,249.0	853.5	-7,188.0
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	12,771.7	259,534.3	-107.2	87.5*	522.9	-14,795.5	-1,234.8	-3,399.0	513.7	-11,779.5
(ख) स्वर्ण \$	1,327.8	26,727.6	—	—	302.1	3,755.2	-90.3	107.3	320.4	4,804.1
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	219.3	4,455.6	-2.8	-19.3	15.3	-113.4	-16.6	26.6	-12.8	-681.7
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	134.0	2,722.2	-1.7	-12.4	2.4	-224.7	-10.2	16.1	32.2	469.1

- + आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किए गये ₹ 18.7 बिलियन/ 380 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश को छोड़कर।
 * अमरीकी डॉलर के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि/मूल्यहास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।
 ** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित निधि की स्थिति अर्थात प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई, 2003 से 26 मार्च, 2004 तक ज्ञापन मद के रूप में दिखाया गया है अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल, 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल की गई है।
 @ इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,883 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) और विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिनका आवंटन क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।
 \$ इसमें ₹314.6 बिलियन (6,699 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

मद	10 फरवरी 2012 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		पखवाड़े में	वित्त वर्ष में अक तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2010-2011	2011-2012	2011	2012
	1	2	3	4	5	6
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	755.7	18.2	36.6	18.3	140.5	69.7
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	237.2	-99.2	-65.7	-60.1	61.3	-20.8
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	102.1	0.3	10.2	30.9	11.9	32.2
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	58,004.6	323.6	5,531.5	5,924.9	7,343.4	7,544.9
		(0.6)	(12.3)	(11.4)	(17.0)	(15.0)
मांग	5,932.6	-6.7	-703.6	-484.4	275.4	180.1
मीयादी	52,072.0	330.3	6,235.1	6,409.3	7,068.0	7,364.7
उधार ⁽³⁾	1,825.5	-7.0	204.8	512.1	188.0	577.9
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,421.3	-61.3	-60.1	3.2	-60.9	187.2
रिज़र्व बैंक से उधार	41.9	-50.8	29.5	-8.5	29.9	11.9
रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,598.2	-454.9	362.7	103.1	708.5	165.8
पास में नकदी	340.2	-29.3	39.1	36.7	54.4	45.3
रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष	3,258.0	-425.6	323.6	66.4	654.1	120.5
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	667.9	19.6	-129.3	106.5	-23.8	173.0
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	134.6	-76.6	-21.0	-31.5	43.5	-21.2
बैंकों को अग्रिम	48.5	-24.3	-37.5	-77.2	28.8	-12.9
अन्य आस्तियां	793.2	-6.3	80.2	102.4	256.3	268.3
निवेश⁽⁵⁾	17,314.1	413.9	873.2	2,298.0	771.6	2,593.4
		(2.4)	(6.3)	(15.3)	(5.5)	(17.6)
सरकारी प्रतिभूतियों में	17,282.4	415.3	893.4	2,310.9	794.6	2,605.1
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	31.7	-1.4	-20.1	-13.0	-23.0	-11.7
बैंक ऋण	43,823.9	310.6	5,430.0	4,403.1	7,329.9	5,946.1
		(0.7)	(16.7)	(11.2)	(24.0)	(15.7)
खाद्य ऋण	815.8	-15.1	155.1	173.0	194.8	175.8
खाद्येतर ऋण	43,008.1	325.7	5,274.8	4,230.1	7,135.1	5,770.3
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	42,228.8	281.9	5,267.9	4,288.7	7,060.2	5,739.3
देशी बिल - खरीदे गए	159.7	3.6	12.2	25.3	20.8	27.4
भुनाए गए ⁽⁶⁾	845.2	21.5	86.7	46.6	142.8	136.4
विदेशी बिल - खरीदे गए	196.3	3.3	19.8	10.5	14.9	15.2
भुनाए गए	393.9	0.3	43.4	32.0	91.2	27.9
नकद-जमा अनुपात	6.20					
निवेश-जमा अनुपात	29.85					
ऋण - जमा अनुपात	75.55					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी: 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद/सप्ताहांत	2011	2012					
	11 फरवरी	6 जनवरी	13 जनवरी	20 जनवरी	27 जनवरी	3 फरवरी	10 फरवरी
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.50	5.50
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आधार दर ⁽²⁾	8.00 / 9.50	10.00 / 10.75	10.00 / 10.75	10.00 / 10.75	10.00 / 10.75	10.00 / 10.75	10.00 / 10.75
जमा दर ⁽³⁾	8.25 / 9.50	8.50 / 9.25	8.50 / 9.25	8.50 / 9.25	8.50 / 9.25	8.50 / 9.25	8.50 / 9.25
मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत) ⁽⁴⁾	6.61	8.80	8.69	9.11	8.97	8.99	8.70

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात (2) 1 जुलाई 2010 से पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित आधार दर। पहले के आंकड़ों का संबंध बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से है। (3) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित है। (4) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन का 90-95 प्रतिशत भाग शामिल है। मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत) सप्ताह (शनिवार से शुक्रवार) के लिए दैनिक मांग मुद्रा दर का मात्रा-भारांकित औसत है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बांडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(₹ बिलियन)

मद	2011 - 2012			2010 - 2011		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (2) - (1)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (5) - (4)
	2011	2012		2010	2011	
	25 मार्च	10 फरवरी		26 मार्च	11 फरवरी	
	1	2	3	4	5	6
1 बैंक ऋण	39,420.8	43,823.9	4,403.1	32,447.9	37,877.8	5,430.0
			(11.2)			(16.7)
क. खाद्य ऋण	642.8	815.8	173.0	484.9	640.0	155.1
ख. खाद्येतर ऋण	38,778.0	43,008.1	4,230.1	31,963.0	37,237.8	5,274.8
			(10.9)			(16.5)
2 निवेश	1,476.0	1,668.7	192.7	1,180.7	1,553.0	372.3
क. वाणिज्यिक पत्र	123.1	260.9	137.8	251.9	323.7	71.8
ख. निम्न (क + ख) द्वारा जारी शेयर	413.2	370.0	-43.2	301.1	369.3	68.2
(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	89.6	70.5	-19.1	46.2	84.2	38.0
(ख) निजी कंपनी क्षेत्र	323.5	299.4	-24.1	254.8	285.1	30.2
ग. निम्न (क + ख) द्वारा जारी बांड/डिबेंचर	939.8	1,037.9	98.1	627.8	860.0	232.3
(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	279.5	327.3	47.9	227.1	237.6	10.5
(ख) निजी कंपनी क्षेत्र	660.3	710.6	50.3	400.7	622.4	221.7
3 कुल (1ख + 2)	40,254.0	44,676.8	4,422.8	33,143.7	38,790.8	5,647.1
			(11.0)			(17.0)
ज्ञापन मदें:						
में निवेश						
क. पारस्परिक निधियों द्वारा जारी लिखतें	476.0	392.9	-83.2	528.9	948.4	419.6
ख. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतें	313.0	400.4	87.5	326.0	289.0	-37.0
ग. अन्यो द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	456.1	382.4	-73.7	309.0	297.4	-11.6

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

6. विदेशी मुद्रा दरें –हाज़िर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2012					वार्षिक वृद्धि (+) / ह्रास (-) प्रतिशत				
	13 फरवरी	14 फरवरी	15 फरवरी	16 फरवरी +	17 फरवरी	13 फरवरी	14 फरवरी	15 फरवरी	16 फरवरी +	17 फरवरी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	49.3180	49.3313	49.2520		49.2128	—	-7.77	-7.72		-7.79
यूरो	65.3520	64.8391	64.8900		64.5849	—	-4.95	-5.33		-4.62
फेडाई की सांकेतिक दरें (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी { खरीद	49.3100	49.3350	49.2500		49.2050	—	-7.78	-7.71		-7.78
डॉलर { बिक्री	49.3200	49.3450	49.2600		49.2150	—	-7.78	-7.70		-7.78
पौंड { खरीद	77.8350	77.4075	77.4450		77.7300	—	-5.63	-5.86		-5.99
स्टर्लिंग { बिक्री	77.8625	77.4375	77.4700		77.7600	—	-5.62	-5.85		-5.99
यूरो { खरीद	65.3450	64.8025	64.8775		64.5725	—	-4.91	-5.34		-4.61
{ बिक्री	65.3675	64.8200	64.9100		64.6050	—	-4.91	-5.35		-4.63
100 येन { खरीद	63.5100	63.2500	62.7625		62.1600	—	-13.55	-13.28		-12.71
{ बिक्री	63.5650	63.2950	62.7825		62.1950	—	-13.57	-13.26		-12.68
अमरीकी डॉलर का अंतर – बैंक वायदा प्रीमिया (वार्षिक प्रतिशत)										
1-माह	8.52	8.88	8.28		8.53					
3-माह	8.11	8.03	8.04		8.21					
6-माह	7.06	6.89	6.98		7.19					

— पिछले वर्ष के तदनुसंगी दिन बाज़ार बंद। + बाज़ार बंद।

टिप्पणी : 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011	2012	पखबाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
	31 मार्च #	10 फरवरी #			2010-2011		2011-2012		2011		2012	
	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम 3	64,994.9	72,118.9	524.2	0.7	7,212.6	12.9	7,124.0	11.0	9,274.6	17.2	8,879.3	14.0
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	9,142.0	10,165.3	198.8	2.0	1,402.2	18.3	1,023.3	11.2	1,502.9	19.8	1,088.1	12.0
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	7,176.6	6,639.5	-5.9	-0.1	-686.7	-9.6	-537.1	-7.5	375.6	6.1	146.5	2.3
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	48,639.8	55,292.4	336.4	0.6	6,504.3	15.8	6,652.6	13.7	7,400.3	18.4	7,653.8	16.1
(iv) रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	36.5	21.7	-5.1	-19.0	-7.2	-18.9	-14.8	-40.5	-4.1	-11.8	-9.1	-29.6
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क + ख)	19,827.7	23,189.6	179.5	0.8	1,874.6	11.2	3,361.9	17.0	2,744.4	17.3	4,623.1	24.9
(क) रिज़र्व बैंक	3,965.5	4,992.6	-191.3		878.5		1,027.1		1,819.9		1,998.3	
(ख) अन्य बैंक	15,862.2	18,197.0	370.9	2.1	996.2	6.8	2,334.8	14.7	924.5	6.3	2,624.8	16.9
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क + ख)	42,354.1	47,006.8	313.6	0.7	5,817.6	16.7	4,652.7	11.0	7,728.7	23.4	6,275.0	15.4
(क) रिज़र्व बैंक	21.6	33.8	1.2	—	2.4	—	12.2	—	-33.4	—	18.1	—
(ख) अन्य बैंक	42,332.4	46,973.0	312.3	0.7	5,815.2	16.7	4,640.5	11.0	7,762.0	23.6	6,256.9	15.4
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,933.4	14,686.5	-126.2	-0.9	1,002.4	7.8	753.1	5.4	704.3	5.4	869.5	6.3
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	127.2	137.2	—	—	12.1	10.7	9.9	7.8	14.2	12.9	12.4	9.9
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं	11,247.6	12,901.1	-157.4	-1.2	1,494.1	17.6	1,653.6	14.7	1,917.0	23.7	2,900.7	29.0
जिनमें से : रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं	3,683.5	5,403.6	-92.5	-1.7	718.4	23.8	1,720.1	46.7	246.8	7.1	1,668.8	44.7

* 20 मार्च 2009 से आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी: 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011	2012	सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
	31 मार्च #	17 फरवरी #			2010-2011		2011-2012		2011		2012	
	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	13,768.2	14,377.0	349.4	2.5	1,382.6	12.0	608.8	4.4	2,281.1	21.4	1,437.9	11.1
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	9,496.6	10,601.1	48.4	0.5	1,462.5	18.3	1,104.5	11.6	1,592.8	20.3	1,143.1	12.1
(ii) रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमा	4,235.1	3,754.3	301.2	8.7	-73.6	-2.1	-480.8	-11.4	691.8	25.1	304.9	8.8
(iii) रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	36.5	21.6	-0.1	-0.6	-6.3	-16.6	-14.9	-40.9	-3.5	-10.0	-10.1	-31.9
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	3,965.5	5,345.5	352.8		1,048.4		1,379.9		1,848.7		2,181.2	
	3,940.3	5,342.9	349.8		1,035.7		1,402.5		1,838.2		2,191.4	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबाई सहित)	73.2	115.8	39.8		25.1		42.6		1.0		65.8	
	51.6	81.8	39.6		22.6		30.2		31.6		47.4	
(iii) रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,285.7	14,118.0	-107.4	-0.8	957.0	7.8	832.3	6.3	615.0	4.9	841.5	6.3
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	127.2	137.2	—	—	12.1	10.7	9.9	7.8	14.2	12.9	12.4	9.9
(v) रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयता	3,683.5	5,339.4	-64.2	-1.2	660.0	21.9	1,655.9	45.0	197.9	5.7	1,663.0	45.2

* 20 मार्च 2009 से आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी: 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(₹ बिलियन)

तारीख	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि (+) / कमी (-) (5 - 10)	एमएसएफ	बकाया राशि
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13 फरवरी 2012	1	63	1,660.80	63	1,660.80	8.50	—	—	—	—	—	1,660.80	—	-1,660.80
14 फरवरी 2012	1	66	1,701.55	66	1,701.55	8.50	—	—	—	—	—	1,701.55	—	-1,701.55
15 फरवरी 2012	2	68	1,684.35	68	1,684.35	8.50	—	—	—	—	—	1,684.35	—	-1,684.35
17 फरवरी 2012	4	67	1,655.10	67	1,655.10	8.50	2	15.75	2	15.75	7.50	1,639.35	—	-1,639.35

एमएसएफ : सीमांत स्थायी सुविधा।

‘—’ : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई/लागू नहीं

10. भारत सरकार खज़ाना बिलों की नीलामी

(₹ बिलियन)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (7+8+9)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91-दिवसीय खज़ाना बिल													
2011-2012													
6 जुलाई	8 जुलाई	70.00	94	276.21	2.50	29	70.00	2.50	—	72.50	98.00	8.1857	1,218.60
5 अक्टूबर	7 अक्टूबर	40.00	69	147.55	15.00	41	40.00	15.00	—	55.00	97.94	8.4364	1,147.19
4 जनवरी	6 जनवरी	60.00	95	143.73	17.10	65	60.00	17.10	—	77.10	97.93	8.5201	893.25
15 फरवरी	17 फरवरी	90.00	99	196.14	24.02	75	90.00	24.02	—	114.02	97.83	8.9388	1,181.80
182-दिवसीय खज़ाना बिल													
2011-2012													
6 जुलाई	8 जुलाई	30.00	75	71.78	—	44	30.00	—	—	30.00	96.05	8.2692	342.51
12 अक्टूबर	14 अक्टूबर	40.00	56	72.93	—	41	40.00	—	—	40.00	95.90	8.6177	421.00
4 जनवरी	6 जनवरी	40.00	99	111.88	—	50	40.00	—	—	40.00	96.01	8.4215	463.51
15 फरवरी	17 फरवरी	40.00	83	127.62	—	29	40.00	—	—	40.00	95.87	8.6613	494.01
364-दिवसीय खज़ाना बिल													
2011-2012													
13 जुलाई	15 जुलाई	30.00	107	131.41	—	20	30.00	—	—	30.00	92.41	8.2360	533.08
5 अक्टूबर	7 अक्टूबर	40.00	93	106.45	—	43	40.00	—	—	40.00	92.18	8.5185	651.61
11 जनवरी	13 जनवरी	40.00	94	97.88	—	50	40.00	—	—	40.00	92.53	8.2007	833.71
8 फरवरी	10 फरवरी	40.00	105	157.80	—	28	40.00	—	—	40.00	92.19	8.5067	873.71

टिप्पणियाँ: 1. 91 दिवसीय खज़ाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फॉर्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खज़ाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगी बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक/364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक/365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(₹ बिलियन)

	दिनांक													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11 फरवरी	12 फरवरी	13 फरवरी	14 फरवरी	15 फरवरी	16 फरवरी	17 फरवरी	18 फरवरी	19 फरवरी	20 फरवरी	21 फरवरी	22 फरवरी	23 फरवरी	24 फरवरी
24 फरवरी 2012 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ	3,368.8	3,368.8	3,368.8	3,368.8	3,368.8	3,368.8	3,368.8	3,368.8	3,368.8	3,368.8	3,368.8	3,368.8	3,368.8	3,368.8
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी शेष	3,295.0	3,295.0	3,507.9	3,526.0	3,639.8	3,643.1	3,556.1							

टिप्पणी: ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(₹ बिलियन)

को समाप्त पखवाड़ा		कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत)@
		1	2	3
14 जनवरी	2011	3,718.8	440.2	7.18 - 09.82
8 अप्रैल	2011	4,445.3	612.9	8.00 - 11.70
15 जुलाई	2011	4,059.7	284.3	8.20 - 10.10
7 अक्टूबर	2011	3,873.1	416.9	8.80 - 09.85
16 दिसम्बर	2011	3,731.8	565.2	9.14 - 10.05
30 दिसम्बर	2011	4,030.0	911.1	9.16 - 10.50

@ प्राभावी वार्षिक ब्याज दर सीमा प्रतिवर्ष।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(₹ बिलियन)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत)@
	1	2	3
15 जनवरी 2011	989.1	229.1	6.60 - 11.95
15 अप्रैल 2011	1,055.2	308.4	7.15 - 12.30
15 जुलाई 2011	1,283.5	298.2	8.10 - 13.25
15 अक्टूबर 2011	1,664.6	292.4	8.75 - 13.50
15 दिसम्बर 2011	1,775.2	340.1	9.10 - 14.50
31 दिसम्बर 2011	1,341.5	224.4	8.38 - 14.00

@ पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास ।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 2004-05 = 100)

मद	भार	2011	2012	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
		जनवरी	जनवरी #			
	1	2	3	4	5	6
सभी पण्य	100.00	148.0	157.7	0.5	5.5	6.6
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	195.3	199.7	0.9	6.1	2.3
(i) फल और सब्जियां	3.84	206.6	161.5	-3.2	-2.7	-21.8
ईंधन और विद्युत	14.91	151.3	172.8	0.1	9.6	14.2
विनिर्मित उत्पाद	64.97	132.6	141.2	0.4	4.1	6.5
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	2.09	166.6	170.7	-1.5	4.1	2.5
(ii) खाद्य तेल	3.04	127.2	139.4	2.1	8.2	9.6
(iii) सीमेंट और चूना	1.39	148.3	160.4	-0.2	4.4	8.2
(iv) लोहा और सेमिस	1.56	133.8	158.5	1.1	13.0	18.5

टिप्पणी: आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2011	2012				
	17 फरवरी	13 फरवरी	14 फरवरी	15 फरवरी	16 फरवरी	17 फरवरी
	1	2	3	4	5	6
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	18506.82	17772.84	17848.57	18202.41	18153.99	18289.35
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.95=1000)	5546.45	5390.20	5416.05	5531.95	5521.95	5564.30

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यावर्त

(₹ बिलियन)

	समाप्त सप्ताह						
	6 जनवरी 2012	13 जनवरी 2012	20 जनवरी 2012	27 जनवरी 2012	3 फरवरी 2012	10 फरवरी 2012	17 फरवरी 2012
	1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक							
(क) लिए गए उधार	124.8	135.6	159.7	144.1	120.6	102.0	132.8
(ख) दिए गए ऋण	137.7	145.5	165.5	155.9	131.4	115.2	146.8
2. प्राथमिक व्यापारी							
(क) लिए गए उधार	12.9	9.9	6.2	11.9	10.9	13.3	14.0
(ख) दिए गए ऋण	—	—	0.4	0.1	0.1	0.1	—
3. कुल							
(क) लिए गए उधार	137.7	145.5	165.9	156.0	131.5	115.3	146.8
(ख) दिए गए ऋण	137.7	145.5	165.9	156.0	131.5	115.3	146.8

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यावर्त का औसत हैं (शनिवार से शुरुवार)।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं ।

3. इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यावर्त (अंकित मूल्य)@

(₹ बिलियन)

मद	समाप्त सप्ताह					
	13 जनवरी 2012	20 जनवरी 2012	27 जनवरी 2012	3 फरवरी 2012	10 फरवरी 2012	17 फरवरी 2012
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
(क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	2,421.6	2,228.9	1,951.1	2,093.5	1,800.1	1,451.4
(ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	40.2	23.0	30.5	21.2	34.5	11.9
(ग) 91-दिवसीय खज़ाना बिल	45.0	65.2	39.0	57.2	68.1	32.0
(घ) 182-10 दिवसीय खज़ाना बिल	22.2	57.9	6.5	16.2	6.0	11.2
(ङ) 364-दिवसीय खज़ाना बिल	134.1	69.1	4.1	30.0	57.5	48.9
II. भारतीय रिज़र्व बैंक*	100.0	131.1	105.7	8.0	96.8	8.9

@ रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)#

(मिलियन अमरीकी \$)

स्थिति की तारीख	वणिक्						अंतरबैंक					
	एफ सी वाई / आई एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आई एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खरीद												
30 जनवरी 2012	3.051	1.156	1.095	734	219	310	7.153	8.385	711	3.239	1.640	115
31 जनवरी 2012	2.997	1.610	1.601	165	191	271	6.830	10.002	522	3.672	1.489	76
01 फरवरी 2012	3.102	691	424	200	146	142	7.668	9.640	581	3.425	1.475	44
02 फरवरी 2012	2.285	1.218	699	161	175	111	6.491	7.471	618	3.178	1.576	68
03 फरवरी 2012	2.343	920	647	145	188	166	7.105	8.247	986	3.134	770	30
बिक्री												
30 जनवरी 2012	2.530	1.831	828	733	244	279	6.963	9.805	734	3.232	1.847	103
31 जनवरी 2012	2.411	1.974	1.663	165	266	268	6.577	10.885	565	3.658	1.728	84
01 फरवरी 2012	2.849	1.317	194	206	200	143	7.440	11.217	745	3.314	1.740	44
02 फरवरी 2012	2.248	1.525	404	160	198	104	6.346	7.036	607	3.153	1.790	73
03 फरवरी 2012	2.566	1.545	534	153	186	165	6.887	8.696	882	3.116	772	40

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आई एन आर = भारतीय रुपया।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिक् और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(₹ बिलियन)

	समाप्त सप्ताह					
	13 जनवरी 2012	20 जनवरी 2012	27 जनवरी 2012	3 जनवरी 2012	10 फरवरी 2012	17 फरवरी 2012
	1	2	3	4	5	6
राशि	10.7	11.4	5.0	10.9	12.8	8.3

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खज़ाना बिल (अंकित मूल्य)

(₹ बिलियन)

धारक	17 फरवरी 2012					कुल खज़ाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खज़ाना बिल				कुल (1+2+3+4)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवस (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
	1	2	3	4	5	6	7
बैंक	—	307.8	144.6	229.5	681.9	25.5	247.7
प्राथमिक व्यापारी @	—	356.4	217.3	435.1	1,008.8	14.3	442.8
राज्य सरकारें	696.5	395.9	4.0	4.2	1,100.6	-21.7	-14.3
अन्य	14.7	121.7	128.2	204.9	469.4	19.8	201.4

@ बैंक प्राथमिक व्यापारी सहित

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि – 2011-12

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2011-12 (17 फरवरी 2012 तक)	2010-11 (18 फरवरी 2011 तक)	2010-11	2011-12 (17 फरवरी 2012 तक)	2010-11 (18 फरवरी 2011 तक)	2010-11
	1	2	3	4	5	6
1. कुल	4,740.0	4,370.0	4,370.0	4,004.2	3,425.0	3,254.1
2. भा.रि.बैं. के खुला बाजार परिचालन* :						
बिक्री	73.2	74.6	115.7			
खरीद	959.0	763.1	788.0			

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)@

(₹ बिलियन)

मद	10 फरवरी 2012 को समाप्त सप्ताह			17 फरवरी 2012 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (%वार्षिक) सांकेतिक**		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (%वार्षिक) सांकेतिक**	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2011-12	2.0	9.1372	9.1372	—	—	—
2012-13	0.6	8.7209	8.8795	1.7	8.8300	8.8820
2013-14	0.1	8.1200	8.1200	0.5	8.0700	8.0700
2014-15	0.5	8.0400	8.0400	—	—	—
2015-16	1.3	8.0824	8.1519	1.5	8.1411	8.2008
2016-17	2.1	8.1879	8.3062	6.8	8.2197	8.2870
2017-18	0.6	8.1743	8.2290	1.5	8.2435	8.2902
2018-19	51.1	8.1684	8.3193	45.7	8.2175	8.4000
2019-20	20.7	8.1383	8.2931	38.8	8.2089	8.2859
2020-21	6.4	9.5784	9.7925	0.7	9.7765	9.7765
2021 से आगे	814.8	8.0899	8.5998	628.5	8.1529	8.6187
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	17.3	8.5394	8.6959	6.0	8.6200	8.6890
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	8.1	8.5490	9.0017	3.8	8.6039	9.0953
ख) 15 - 91 दिन	34.0	8.3000	8.9000	15.1	8.5000	8.9388
ग) 92 - 182 दिन	6.4	8.7899	8.8699	3.2	8.5959	8.6998
घ) 183 - 364 दिन	17.4	8.3596	8.6500	24.0	8.4241	8.5067
II. भा.रि.बैं. * : बिक्री	—			1.8		
: खरीद	96.8			7.2 +		
III. रिपो लेनदेन # (भा. रि. बैं. से इतर)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	554.5	7.00 (1)	9.80 (15)	314.1	7.50 (1)	9.80 (19)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	3.6	8.25 (1)	8.60 (3)	1.0	8.50 (1)	8.70 (1)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	89.6	8.40 (1)	8.71 (3)	80.2	8.50 (1)	8.70 (4)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	131.9	7.50 (1)	8.75 (3)	82.3	8.48 (1)	8.70 (4)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	24.3	8.35 (1)	8.75 (3)	4.0	8.60 (1)	8.70 (4)
IV. भा.रि.बैं.: रिपो ✕ ^	5,570.7	8.50	8.50	6,701.8	8.50	8.50
: रिवर्स रिपो !	3.5	7.50	7.50	15.8	7.50	7.50

@ भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल हैं।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

** न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (%वार्षिक) गैर मानक समूह (₹ 0.05 बिलियन से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

✕ कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कम्पनियों की ₹ शून्य (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बाँड (तेल बाँड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः ₹ 475 और ₹ 1,425

तथा विदेश में क्रमशः 30 अमरीकी \$ और 90 अमरीकी \$ है।

श्रीमती महुआ रॉय द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटोग्राफी सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 28 मुंबई समाचार मार्ग, राजा बहादुर बिल्डिंग, फोर्ट, मुम्बई - 400 023 में मुद्रित और भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 द्वारा प्रकाशित, संपादक श्रीमती महुआ रॉय।